

From,

Surendra Bahadur,
Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad

request - 112

To,

The District Judge,
Mathura.

5

No. 1484 / IV- 3667 / Admin (A) / Dated 2-2-2010

Subject: - Grant of permission to Km. Shweta Dixit, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura to pursue LL.M. course through correspondence from Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana.

Sir,

With reference to your endt. no. 20/ I dated 04.01.2010 on the above subject, I am directed to say that the Court has been pleased to grant permission to Km. Shweta Dixit, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura to pursue LL.M. course through correspondence from Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana, as requested, subject to the following conditions: -

- (1) Government work should not suffer in any way.
- (2) No preferential treatment will be given in the matter of leave, postings and transfer.
- (3) The permission can be withdrawn without notice if; it is found at any time that the government servant neglects her normal work or that public work suffers, in any way.

Km. Shweta Dixit may kindly be informed accordingly.

Yours faithfully

S. Bahadur
29/11/2010
Joint Registrar

J.R.(M)
order placed below
May issue?
Dr. Jaiswal
28.1.10
S. Kumar
28.1.10
B. Das
28/1/10
RR

6

No. 1485 / IV- 3667 / Admin (A) / Dated 2-2-2010

Copy forwarded for information and necessary action to Km. Shweta Dixit, Additional Civil Judge (Junior Division), Mathura.

S. Bahadur
29/11/2010
Joint Registrar

12-1-10
3:10 P.M.

Scout Lal
12-1-10
W.O. Encl
4.15 P.M.

12-1-10

637

3667

13/1/10

13-1-10

प्रेषिका,

श्वेता दीक्षित,
अपर सिविल जज, अव. व. ०१,
न्यायालय कक्ष सं-०-३
मधुरा ।

सेवा में,

माननीय महा विबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

request-112

द्वारा,

जनपद न्यायाधीश,
मधुरा ।

बिषय :- पत्राचार के माध्यम से विधि स्नातकोत्तर करने की अनुमति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैंने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुपालन में दिनांक 11-5-2009 को कार्यभार ग्रहण किया था । मैं वर्तमान में अपर सिविल जज, अव. व. ०१ मधुरा न्यायालय कक्ष सं-०-३ के पद पर नियुक्त हूँ ।

मैंने विधि स्नातकोत्तर पत्राचार के माध्यम से करने हेतु कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में आवेदन किया है । अ. पा. क्र. १२००९-२०११ पत्राचार को पूर्ण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता है । अतः मेरे न्यायिक सेवा के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी ।

अतः श्रामान जी से सानुरोध प्रार्थना है कि मुझे विधि स्नातकोत्तर पत्राचार अ. पा. क्र. पूर्ण करने के सम्बन्ध में यह प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

ससम्मान ।

दि 04/1/2010

श्वेता दीक्षित

Shweta

4/1/2010

श्वेता दीक्षित

अपर सिविल जज अव. व. ०१
न्यायालय कक्ष सं-०-३
मधुरा ।

400
7-1-2010

136

VRHEW

S.O. Adm. 2/1/A

12-1-10

J.R.M.

J.R.C.M.

W.O. Encl

7

12/1/10

न्यायालय मधुरा न्यायाधीश, मधुरा
दिनांक 04/1/2010

12 JAN 2010

A.K.S
16-1-10